

प्रेस प्रकाशनी

22 जुलाई, 2022 को दसवीं कक्षा के लिए बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा के बाद, सीबीएसई ने कंपार्टमेंट श्रेणी वाले या प्रदर्शन में सुधार के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए 23 अगस्त, 2022 से 29 अगस्त 2022 तक दसवीं कक्षा के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की है।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद, कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित करने के लिए तैयार है और तदनुसार आज दिनांक 09/09/2022 को घोषित किया जा रहा है। न्यूनतम समय में परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड द्वारा पूरे प्रयास किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पढाई जारी रखने में सहायता मिलेगी।

ऐसे छात्र जिन्हें मुख्य परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण घोषित किया गया और एक या दो विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित हो चुके हैं, उनका परिणाम भी आज घोषित किया जा रहा है।

पहली बार, बोर्ड कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों को परिणाम की घोषणा के समय ही एक संयुक्त अंकपत्र सह उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है, जिन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। सभी छात्र जो उत्तीर्ण घोषित हो चुके हैं, उनका संयुक्त अंकपत्र सह उत्तीर्णता प्रमाणपत्र डिजिलॉकर में उपलब्ध कराया जाएगा।

उन छात्रों के मामले में जो सुधार के लिए उपस्थित हुए या जो कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ थे, उनके केवल एक विषय / दो विषयों का प्रदर्शन ही डिजिलॉकर में उपलब्ध होगा।

बोर्ड उन छात्रों के लिए 12/09/2022 से अंकों के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करेगा जो कंपार्टमेंट परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद, मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराने एवं पुनर्मूल्यांकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता./-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक